

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी में फैसिलिटीज के बंद होने और कार्यक्रम रद्द होने का समय बढ़ने के कारण गैर-जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को अस्थायी रूप से नौकरी से हटाया गया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (17 अप्रैल, 2020) – COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) को फैलने से रोकने के लिए, अधिक समय तक फैसिलिटीज के बंद होने और प्रोग्रामिंग के रद्द होने के कारण, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने एक मुश्किल फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक 18 अप्रैल, 2020 से, गैर-जरूरी और गैर-महत्वपूर्ण सेवाओं में काम करने वाले पार्ट-टाइम, अस्थायी/अनियमित और केवल सीजन के समय काम करने वाले स्टाफ मेम्बरों को अस्थायी तौर पर नौकरी से हटा दिया गया है।

यह अस्थाई कार्रवाई है। सिटी यकीन दिलाती है कि जैसे ही हम भिन्न प्रोग्राम व सेवाएं दुबारा शुरू करेंगे, इन कर्मचारियों को वापस काम पर बुला लेंगे।

इस दौरान, सिटी, इस फैसले से प्रभावित कर्मचारियों को सहयोग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिटी का अनुमान है कि कई कर्मचारी, कैनेडा सरकार (Government of Canada) के फायदे संबंधी प्रोग्रामों से आर्थिक सहयोग के लिए योग्य होंगे।

इस सप्ताह के शुरू में, ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) और पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह से, सिटी ने घोषणा की थी कि सिटी के सारे त्यौहार, कार्यक्रम, प्रदर्शन और सिटी की फैसिलिटीज और परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर्स में होने वाले कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों के परमिट, 1 जुलाई, 2020 तक रद्द कर दिए गए हैं। यह घोषणा, 27 मार्च, 2020 की उस घोषणा के बाद की गई थी, जिसमें कहा गया था कि COVID-19 को फैलने से रोकने में मदद के लिए, सिटी हॉल (City Hall) और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की सभी फैसिलिटीज अगले नोटिस तक बंद रहेंगी।

सिटी, जरूरी और महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती रहेगी, इनमें शामिल हैं: फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Fire and Emergency Services), ट्रांज़िट (Transit), बाइ-लॉ एन्फोर्समेंट (By-Law Enforcement), एनिमल सर्विसिज (Animal Services), वर्क्स ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस (Works Operation and Maintenance), पार्क्स एंड फोरेस्ट्री ऑपरेशंस (Parks and Forestry Operations), सिक्योरिटी सर्विसिज (Security Services), साइट प्लान एप्लिकेशंस (Site Plan Applications), बिल्डिंग परमिट्स/इंस्पेक्शंस (Building Permits/Inspections), ऑफिशियल प्लान एमेंडमेंट्स (ओ.पी.ए.) (Official Plan Amendments) (OPAs) और रीज़ोनिंग ऐप्लिकेशंस (Rezoning Planning Applications), 311 और एडमिनिस्ट्रेटिव/टेक्निकल (Administrative/Technical) फंक्शंस।

बिल्कुल ताज़ा जानकारी और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) के लिए, कृपया www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं।

हवाले

“बेशक सिटी के लिए यह बेहद चुनौतीपूर्ण समय है, जिससे हमें बहुत ही मुश्किल, लेकिन जरूरी फैसले लेने पड़ रहे हैं। सिटी की फैसिलिटीज का अधिक समय तक बंद करने का मतलब है कि हम प्रोग्राम और सेवाएं प्रदान करने के तरीके में बदलाव कर रहे हैं।”

हमारा ध्यान लगातार ऐसे उपाय करने पर है, जो इस महामारी के लंबी-अवधि तक के और नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकें।
जिनसे हम अपने समुदाय की सुरक्षा को कायम रख पाएं और जरूरी व महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर सकें, जिन पर निवासी निर्भर हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“देश के कई संगठनों की तरह ही हम भी इस संकट के लिए सक्रिय तौर पर उपाय कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि स्टाफ की उन सहयोग सेवाओं तक पहुंच है, जिनकी इस समय के दौरान उन्हें जरूरत है। मैं हर किसी को यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि यह मुश्किल फैसला, COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए फैसिलिटीज के बंद होने और कार्यक्रमों के रद्द होने के कारण लिया गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रभावित कर्मचारियों का कम महत्व है। वे हमारी टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca